



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 486]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 13, 1976/कार्तिक 22, 1898

No. 486]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 13, 1976/KARTIKA 22, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Banking Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 11th November 1976

S.O. 726(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government being requested so to do by the State Bank of India, establishes, with effect from the 13th November, 1976, a Regional Rural Bank in the State of Orissa under the name of Koraput-Panchabati Gramya Bank, which shall operate within the local limits of the district of Koraput in the State of Orissa.

[No. F.4-88/76-AC(I)]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(बैंकिंग पक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 1976

का० आ० 726 (अ).—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारतीय

(2067)

स्टेट बैंक के अनुरोध पर 13 नवम्बर, 1976 से उड़ीसा राज्य में 'कोरापुट-पंचवटी ग्राम्य बैंक,' नामक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है। यह बैंक उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले की स्थानीय सीमाओं में अपना कारोबार करेगा।

[सं० एफ० 4-88/76-ए सी (1)]

S.O. 727(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and State Bank of India, by which Koraput-Panchabati Gramya Bank has been sponsored, specifies Jeypore in the district Koraput as the place where Koraput-Panchabati Gramya Bank shall have its head office.

[No. F.4-88/76-AC(II)]

क्रा० ग्रा० 727 (अ).—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा कोरापुट-पंचवटी ग्राम्य बैंक के प्रायोजक भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से जेपोर को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर कोरापुट-पंचवटी ग्राम्य बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[सं० एफ० 4-88/76-ए सी (2)]

New Delhi, the 13th November 1976

S.O. 728(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Koraput-Panchabati Gramya Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F.4-88/76-AC(III)]

K. P. A. MENON, Addl. Secy.

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1976

क्रा० ग्रा० 728 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 'कोरापुट-पंचवटी ग्राम्य बैंक' को उक्त उप-खण्ड के प्रयोजन के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं० एफ० 4-88/76-ए सी (3)]

के० पी० ए० मेनन, अपर सचिव।

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development)

NOTIFICATION

Bombay, the 13th November 1976

S.O. 729(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

Koraput-Panchabati Gramya Bank, Jeypore.

[DBOD. No. 138/INCL./C. 102-76]

K. S. KRISHNASWAMY,
Deputy Governor.

भारतीय रिजर्व बैंक
(बैंकिंग परिचालन तथा विकास विभाग),

अधिसूचना

बम्बई, 13 नवम्बर, 1976

का० आ० 729(अ)—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात्:—

कोरापुट—पंचबटी ग्राम्य बैंक, जेपौर।

[डी बी ओ डी सं० 138/आई० एन० सी० ल०/सी० 102/76]

के० एस० कृष्णस्वामी,
उप-गवर्नर।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मूद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली द्वारा मूद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

